

कैंपफायर और बार्बेक्यू, वस्तुएँ जलाने, वाणिज्यिक और अन्य गतिविधियों से संबंधित विक्टोरिया में कई आग संबंधी प्रतिबंध और विनियम लागू होते हैं।

जलाना

विक्टोरिया में गैर-सरकारी भूमि पर वस्तुओं को जलाने से संबंधित प्रतिबंध लागू हैं। ये प्रतिबंध बुशफॉयर की संभावना को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु की घटना हो सकती है और संपत्ति को नुकसान पहुँच सकता है और ये प्रतिबंध सक्रिय तौर पर लागू किए जाते हैं।

आपको किसी भी तरह की आग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध वाले दिनों और मौसमी वर्जित समयावधियों से अवगत रहने के लिए सभी उपलब्ध मीडिया पर नज़र रखनी चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

यह पेज केवल एक संदर्शिका है। आवश्यकताओं के बारे में और अधिक विवरण प्रासंगिक कानून या विनियमों से प्राप्त किया जा सकता है।

सहायता या अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें संपर्क करें।

ध्यान दें: राज्य वन, नेशनल पार्क और संरक्षित सरकारी भूमि पर आग जलाना हमारी जिम्मेदारी है।

आग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध वाले दिनों पर

आग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध वाले दिनों, जलाने पर प्रतिबंध लगा होता है, इसलिए कहीं भी ऐसा करने की अनुमति नहीं होती है। जलाने के लिए दी गई किसी भी अनुमति (परमिट) अपने आप रद्द हो जाती है – इसे एथॉरटी ऑफ बर्न की शर्तों में उल्लेखित किया जाता है।

मौसमी – परमिट की ज़रूरत है

मौसमी वर्जित समयावधिके दौरान वन (अग्नि संरक्षण) विनियम 2014 के अधीन आग संबंधी प्रतिबंध लागू होते हैं।

ये निम्नलिखित नगरपालिकाओं में सरकारी भूमि (अग्नि प्रतिबंध और विनियम में परिभाषा देखें) के 1.5 किलोमीटर के भीतर गैर-सरकारी भूमि पर लागू होते हैं:

- Gippsland – Baw Baw Shire, East Gippsland Shire, Latrobe City, Wellington Shire
- उत्तर पूर्वी विक्टोरिया – Alpine Shire, Benalla Rural City, Indigo Shire, Mansfield Shire, Mitchell Shire, Murrindindi Shire, Strathbogie Shire, Towong Shire, Wangaratta Rural City, Wodonga City
- Alpine Resorts – Falls Creek, Mt Buller, Mt Hotham.

अन्य क्षेत्रों में CFA और नगरपालिकाओं के भी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।

गैर-सरकारी भूमि पर जलाने के लिए और उन स्थानों पर जहाँ मौसमी वर्जित समयावधि लागू हो, आपको एथॉरटी (परमिट) ऑफ बर्न [जलाने के लिए अधिकार-पत्र] का आवेदन करने की ज़रूरत होगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय DELWP कार्यालय से संपर्क करें।

एथॉरटी ऑफ बर्न कुछ निश्चित शर्तों का विवरण देगी जिनकी पालना करनी आपके लिए ज़रूरी होगी, जैसे कि:

- तोड़े गये ईंधन की चौड़ाई
- जलाने और बुझाने का समय और दिन
- निरीक्षण
- सूचना देना।

कोई भी एथॉरटी ऑफ बर्न अपने आप से निम्नलिखित दिनों में रद्द हो जाती है:

- आग लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध वाले दिन और
- कुछ अन्य निश्चित दिन।

मौसमी वर्जित समयावधि के बाहर

मौसमी वर्जित समयावधि के बाहर, हम गैर-सरकारी भूमि पर जलाने से संबंधित शर्तें लागू नहीं करते हैं। परन्तु, फिर भी आप अपने द्वारा लगाई आग की सुरक्षा और दायित्व के लिए और साथ ही आग या आग के फैलने से हुए किसी नुकसान या परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं।

CFA और नगरपालिकाओं के भी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।



यदि आपको सहायता की ज़रूरत है तो कृपया अनुवाद एवं दुभाषिया संबंधी सहायता के लिए अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service - TIS) से संपर्क करें।

TIS नेशनल से 131 450 पर संपर्क करें (ऑस्ट्रेलिया में) या वेबसाइट www.tisnational.gov.au पर जाएँ